



Teachingninja.in



Latest Govt Job updates



Private Job updates



Free Mock tests available



Visit - teachingninja.in

UKPSC Investigator & ASO

**Previous Year Paper
(Commerce) 08 Oct, 2024**



पेपर सील खोले बगैर इस तरफ से उत्तर शीट को बाहर निकालें ।
Without opening the Paper seal take out Answer Sheet
from this side.

ASC



परीक्षा का वर्ष : 2024

प्रश्न-पुस्तिका

प्रश्न-पत्र-II (वैकल्पिक विषय)

प्रश्न-पुस्तिका शृंखला

अपना अनुक्रमांक सामने अंकों में
बॉक्स के अन्दर लिखें

शब्दों में



वाणिज्य

COMMERCE

समय : 03:00 घंटे

पूर्णांक : 200

Time : 03:00 Hours

Maximum Marks : 200

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें ।

महत्वपूर्ण निर्देश

- प्रश्न-पुस्तिका के कवर पेज पर अनुक्रमांक के अतिरिक्त कुछ न लिखें ।
- यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो तो प्रश्न के अंग्रेजी तथा हिन्दी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर को मानक माना जायेगा ।
- अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक, विषय-कोड एवं प्रश्न-पुस्तिका की सीरीज का अंकन OMR Answer Sheet में निर्दिष्ट कॉलम में सही-सही करें, अन्यथा उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।
- अभ्यर्थी रफ कार्य हेतु प्रश्न-पुस्तिका (बुकलेट) के अन्त में दिये गये पृष्ठों का ही केवल उपयोग करें । अलग से इस हेतु वर्किंग शीट उपलब्ध नहीं करायी जायेगी ।
- इस प्रश्न-पुस्तिका में 200 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हैं । प्रश्न पुस्तिका में अंकित सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के समान अंक है । आपके जितने उत्तर सही होंगे उन्ही के अनुसार अंक दिये जायेंगे ।
- प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर, प्रश्न के नीचे (a), (b), (c) एवं (d) दिये गये हैं । इन चारों में से केवल एक ही सही उत्तर है । जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, उत्तर-पत्रक (ओ.एम.आर. आंसर शीट) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले अथवा नीले बॉल प्वाइंट पेन से पूरा काला/नीला कर दें ।
- आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जायेगी । अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई अंक दण्ड के रूप में काटा जाएगा । दण्ड स्वरूप प्राप्त अंकों के योग को कुल प्राप्तियों में से घटाया जाएगा ।
- आपके द्वारा सभी उत्तर केवल ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिया जाना अनिवार्य है । ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक के अतिरिक्त अन्य कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा ।
- ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर कुछ लिखने के पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें । ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक में वांछित सूचनाओं को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व भरा जाना अनिवार्य है ।
- ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक तीन प्रतियों (मूल प्रति, कार्यालय प्रति एवं अभ्यर्थी प्रति) में है । परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अभ्यर्थी ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक की मूल प्रति एवं कार्यालय प्रति अन्तरीक्षक (Invigilator) को हस्तगत करने के उपरान्त ही कक्ष छोड़ें । अन्यथा की स्थिति में आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक की अभ्यर्थी प्रति, अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं ।
- यदि आपने इन अनुदेशों को पढ़ लिया है, इस पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अंकित कर दिया है और ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर वांछित सूचनायें भर दी हैं, तो तब तक प्रतीक्षा करें, जब तक आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने को नहीं कहा जाता ।
- ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक (O.M.R. Answer Sheet) का मूल्यांकन ओ.एम.आर. आंसर शीट पर अभ्यर्थी द्वारा अंकित सीरीज कोड (A, B, C, D) के आधार पर ही किया जायेगा ।
- प्रश्न-पुस्तिका (Question Booklet) में से ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक (O.M.R. Answer Sheet) निकालने के पश्चात् ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर प्रश्न-पुस्तिका क्रमांक एवं प्रश्न-पुस्तिका के सीरीज कोड (A, B, C, D) की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक करें । यदि उक्तानुसार कार्यवाही नहीं की जाती है, तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ।

जब तक कहा न जाय इस प्रश्न-पुस्तिका को न खोलें ।

महत्वपूर्ण : प्रश्न-पुस्तिका खोलने पर तुरन्त जांच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पेज भली-भाँति छपे हुए हैं । यदि प्रश्न-पुस्तिका सीलबंद न हो अथवा कोई अन्य कमी हो, तो अन्तरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें ।

1. Which of the following is method of selective credit control ?
 (a) Regulation of consumer credit (b) Bank rate
 (c) Open market operations (d) Variable reserve ratio
2. Merchant Banking was originated in
 (a) Italy (b) U.S.A. (c) U.K. (d) India
3. The Capital Market is concerned with
 (a) Short Term Financing
 (b) Long Term Financing
 (c) Both Short Term and Long Term Financing
 (d) LIBOR Rates
4. The Board of Directors of a nationalized bank including chairman should have
 (a) 14 members (b) 15 members (c) 16 members (d) 17 members
5. The L.I.C. (Life Insurance Corporation of India) was formed in the year
 (a) 1948 (b) 1956 (c) 1964 (d) 1984
6. The Head Office of SEBI is situated in
 (a) Delhi (b) Mumbai (c) Chennai (d) Kolkata
7. SEBI was given legal status in the year
 (a) 1992 (b) 1994 (c) 1996 (d) 2001
8. Non-Banking Financial Companies (NBFCs) should have minimum net owned funds for registration
 (a) ₹ 50 lakh (b) ₹ 25 lakh (c) ₹ 2 crores (d) ₹ 5 crores
9. Maturity period of capital market instruments is of
 (a) 365 days (b) 5 years (c) 10 years (d) No limit
10. Credit cards are also known as
 (a) Plastic money (b) Metal money (c) E-money (d) All of the above
11. Which of the following is not a quantitative credit control method ?
 (a) Bank Rate (b) Open Market Operations
 (c) Variable Reserve Ratio (d) Credit Rationing
12. Which of the following has the authority of note issue ?
 (a) Commercial Banks (b) Scheduled Banks
 (c) Reserve Bank of India (d) Co-operative Banks
13. The 'NPA' level is concerned with
 (a) Insurance Reforms (b) Bank Reforms
 (c) Tax Reforms (d) None of the above
14. NBFC should transfer of their net profit to reserve fund not less than
 (a) 15 percent (b) 20 percent (c) 10 percent (d) 30 percent
15. CAGR stands for
 (a) Cash Annual Growth Rate
 (b) Capital Annual Growth Rate
 (c) Compound Annual Growth Rate
 (d) Credit Annual Growth Rate
16. Commercial Banks mainly invest in
 (a) Government Securities (b) Life Insurance Policies
 (c) Commercial Securities (d) Equity Shares

1. निम्नांकित में चयनात्मक साख नियंत्रण का उपाय कौन सा है ?
 (a) उपभोक्ता साख का नियमन (b) बैंक दर
 (c) खुले बाज़ार की क्रियाएँ (d) परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात
2. मर्चेन्ट बैंकिंग का उद्भव हुआ
 (a) इटली में (b) यू एस ए में (c) यू के में (d) भारत में
3. पूँजी बाज़ार सम्बन्धित है
 (a) अल्पकालिक वित्त से (b) दीर्घकालिक वित्त से
 (c) अल्पकालिक व दीर्घकालिक वित्त दोनों से (d) लिबोर दरों से
4. एक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल में चेयरमैन सहित सदस्यों की संख्या होनी चाहिए
 (a) 14 (b) 15 (c) 16 (d) 17
5. भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई ?
 (a) 1948 में (b) 1956 में (c) 1964 में (d) 1984 में
6. सेबी (SEBI) का मुख्यालय कहाँ स्थित है ?
 (a) दिल्ली (b) मुम्बई (c) चेन्नई (d) कोलकाता
7. सेबी (SEBI) को वैधानिक दर्जा निम्न वर्ष में दिया गया :
 (a) 1992 (b) 1994 (c) 1996 (d) 2001
8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पास पंजीकरण के लिए न्यूनतम शुद्ध फण्ड होने चाहिए
 (a) ₹ 50 लाख (b) ₹ 25 लाख (c) ₹ 2 करोड़ (d) ₹ 5 करोड़
9. पूँजी बाज़ार प्रपत्र की परिपक्वता अवधि होती है
 (a) 365 दिन (b) 5 वर्ष (c) 10 वर्ष (d) कोई सीमा नहीं
10. क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम है :
 (a) प्लास्टिक मनी (b) मेटल मनी (c) ई-मनी (d) उपर्युक्त सभी
11. निम्न में साख नियंत्रण की कौन सी रीति परिमाणात्मक नियंत्रण विधि नहीं है ?
 (a) बैंक दर (b) खुले बाज़ार की क्रियाएँ
 (c) परिवर्तनशील कोषानुपात (d) क्रेडिट राशनिंग
12. निम्नलिखित में से किसके पास नोट जारी करने का प्राधिकार है ?
 (a) वाणिज्यिक बैंक (b) अनुसूचित बैंक (c) भारतीय रिज़र्व बैंक (d) सहकारी बैंक
13. 'एन.पी.ए.' स्तर का सम्बन्ध है
 (a) बीमा सुधारों से (b) बैंक सुधारों से (c) कर सुधारों से (d) उपर्युक्त में किसी से नहीं
14. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी को अपने शुद्ध लाभ का कम से कम कितना प्रतिशत रिज़र्व फण्ड में हस्तान्तरण करना चाहिए ?
 (a) 15 प्रतिशत (b) 20 प्रतिशत (c) 10 प्रतिशत (d) 30 प्रतिशत
15. सी.ए.जी.आर. का पूर्ण प्रारूप है
 (a) कैश एनुअल ग्रोथ रेट (b) कैपिटल एनुअल ग्रोथ रेट
 (c) कंपाउण्ड एनुअल ग्रोथ रेट (d) क्रेडिट एनुअल ग्रोथ रेट
16. वाणिज्यिक बैंक मुख्यतः निवेश करते हैं :
 (a) सरकारी प्रतिभूतियों में (b) जीवन बीमा पॉलिसियों में
 (c) व्यापारिक प्रतिभूतियों में (d) समता अंशों में

17. Narsimham Committee was related to which of the following reforms ?
 (a) Higher Education Reforms 2020
 (b) Tax Structure Reforms
 (c) Banking Structure Reforms
 (d) Planning Implementation Reforms
18. Work Study includes :
 (i) Time Study
 (ii) Fatigue Study
 (iii) Motion Study
 (a) (i) and (ii) (b) (i) and (iii) (c) (ii) and (iii) (d) (i), (ii) and (iii)
19. Achievement Test is also known as
 (a) Performance Test (b) Aptitude Test
 (c) Interest Test (d) Attitude Test
20. Which among the following is not the Likert's system of leadership style ?
 (a) Exploitive Authoritative (b) Benevolent Authoritative
 (c) Charismatic Authoritative (d) Consultative Authoritative
21. Which one is a form of non-verbal communication ?
 (a) Memorandum (b) Pictorial Representation
 (c) Telephone (d) Face-to-Face communication
22. Which factor is not necessary for 'Management By Objective' programme ?
 (a) Human Relations Skill (b) Sense of Achievement
 (c) Performance Evaluation (d) Delegation of Authority
23. In one way communication, which is not an essential element ?
 (a) Sender (b) Message (c) Encoding (d) Feedback
24. Interview is a stage of
 (a) Recruitment (b) Planning (c) Selection (d) Motivation
25. Neoclassical Organisation Theory emphasizes one of the following features of an organizational design, name this :
 (a) Unity of command (b) Tall structure
 (c) Flat structure (d) Narrow span of management
26. Which approach of organizing sharpens understanding of the dynamics of operating sequence and requirements of the business ?
 (a) Result (b) Decision (c) Process (d) Authentic
27. Various sources consulted and stated in the 'Report' are referred as
 (a) Bibliography (b) Index (c) Appendix (d) Schedule
28. Delegation is of
 (a) Authority (b) Responsibility (c) Accountability (d) All of the above
29. Psychological barrier is
 (a) Barrier with superior (b) Barrier with sub-ordinate
 (c) Premature evaluation (d) Faulty transactions
30. Equity theory of motivation is propounded by
 (a) R. de Charms (b) Edwin Locke
 (c) J. Stacy Adams (d) David McClelland

17. नरसिम्हम समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से सम्बंधित थी ?
 (a) उच्च शिक्षा सुधार 2020 (b) कर संरचना सुधार
 (c) बैंकिंग संरचना सुधार (d) योजना कार्यान्वयन सुधार
18. कार्य अध्ययन में सम्मिलित है :
 (i) समय अध्ययन (ii) थकान अध्ययन (iii) गति अध्ययन
 (a) (i) एवं (ii) (b) (i) एवं (iii) (c) (ii) एवं (iii) (d) (i), (ii) एवं (iii)
19. उपलब्धि परीक्षा को यह भी कहा जाता है :
 (a) निष्पादन परीक्षा (b) अभिरुचि परीक्षा (c) रुचि परीक्षा (d) अभिवृत्ति परीक्षा
20. निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट की नेतृत्व शैली की प्रणाली नहीं है ?
 (a) शोषणकारी प्राधिकारिक (b) उदारवादी प्राधिकारिक
 (c) चमत्कारी प्राधिकारिक (d) सलाहकारी प्राधिकारिक
21. कौन सा अशाब्दिक सम्प्रेषण का एक प्रारूप है ?
 (a) ज्ञापन (b) चित्रात्मक प्रदर्शन (c) दूरभाष (d) आमने-सामने सम्प्रेषण
22. 'उद्देश्यों द्वारा प्रबन्धन' के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है ?
 (a) मानव सम्बन्ध कौशल (b) उपलब्धि की भावना
 (c) निष्पादन मूल्यांकन (d) अधिकार भारार्पण
23. निम्न में से कौन सा एकतरफा संचार का आवश्यक तत्व नहीं है ?
 (a) प्रेषक (b) संदेश (c) एन्कोडिंग (d) फीडबैक
24. साक्षात्कार एक चरण है
 (a) भर्ती का (b) योजना का (c) चयन का (d) अभिप्रेरणा का
25. नवशास्त्रीय संगठनात्मक सिद्धान्त संगठन बनावट की निम्नलिखित विशेषताओं में से एक पर बल देता है, वह है :
 (a) आदेश की एकता (b) लंबा ढाँचा (c) सपाट ढाँचा (d) प्रबन्ध की संकीर्ण अवधि
26. संगठन का कौन सा सिद्धान्त परिचालन अनुक्रम की गतिशीलताओं और व्यवसाय की आवश्यकताओं की समझ को तेज करता है ?
 (a) परिणाम (b) निर्णय (c) प्रक्रिया (d) प्रामाणिक
27. रिपोर्ट में परामर्श किये गये और बताये गये विभिन्न स्रोतों को _____ कहा जाता है ।
 (a) ग्रंथ-सूची (b) अनुक्रमणिका (c) परिशिष्ट (d) अनुसूची
28. प्रत्यायोजन किया जाता है
 (a) अधिकार का (b) उत्तरदायित्व का (c) जवाबदेही का (d) उपरोक्त सभी का
29. मनोवैज्ञानिक बाधा है
 (a) श्रेष्ठ के साथ बाधा (b) अधीनस्थ के साथ बाधा
 (c) समयपूर्व मूल्यांकन (d) दोषपूर्ण ट्रांसेक्शन
30. अभिप्रेरणा का समता सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया
 (a) आर.डी चार्म्स द्वारा (b) एडविन लॉक द्वारा (c) जे. स्टेसी एडम्स द्वारा (d) डेविड मैक्लेलैंड द्वारा

31. Who has given the concept of Managerial Grid ?
 (a) F.W. Taylor (b) Elton Mayo
 (c) Blake and Mouton (d) Victor Vroom
32. Who gave the framework of 'Johari Window' ?
 (a) Gary Neilson (b) Robert Wayland
 (c) Luft and Ingham (d) Paul Cole
33. Which among the following is the Content Theory of Motivation ?
 (a) Vroom Expectancy (b) Porter and Lawler
 (c) Goal setting (d) Theory Z
34. Which among the following is not a modern control technique ?
 (a) Control by Observations (b) Control by Dictatorship
 (c) Control by Motivation (d) Control by Exception
35. Paralanguage is
 (a) Eye contact (b) Positioning (c) Gestures (d) Diction
36. Which among the following communication is not a form of non-verbal communication ?
 (a) Body language (b) Para language
 (c) Sign language (d) Written message
37. Monitoring and Evaluation of Corporate Social Responsibility activities are carried through
 (a) internally (b) externally (c) regulatory body (d) All of the above
38. The report which emphasizes on the employed methods, assumptions of the study and detailed presentation of findings is called _____.
 (a) Popular Report (b) Technical Report
 (c) Oral Report (d) Written Report
39. "A plan is a trap to capture the future." This statement is given by
 (a) Allen (b) Terry (c) Newman (d) Hurley
40. Which of the following is not a characteristic of productive meetings ?
 (a) Agenda (b) Maintaining eye contacts
 (c) Conducting the meeting (d) Informal speech
41. The principles of corporate social responsibility do not include
 (a) Sustainability (b) Accountability (c) Transparency (d) Profitability
42. Which of the following refers to all these factors that disrupt the communication ?
 (a) Non-sense (b) Physical noise (c) Nowhere (d) Nobody
43. Decision-making is involved in the following functions :
 (a) Planning (b) Organising (c) Controlling (d) All of the above
44. Horizontal Communication takes place between _____.
 (a) Superior to Sub-ordinate (b) Sub-ordinate to Superior
 (c) Employees with same status (d) None of the above
45. Formal type of oral communication includes _____.
 (a) Presentation at business meetings (b) Classroom lectures
 (c) Both (a) and (b) (d) Gossiping with colleagues

31. प्रबंधकीय (मेनेजीरियल) ग्रिड की अवधारणा किसने दी ?
 (a) एफ.डब्ल्यू. टेलर ने (b) एल्टन मेयो ने
 (c) ब्लेक और माउटन ने (d) विक्टर ब्रूम ने
32. 'जोहरी विण्डो' की रूपरेखा किसने दी ?
 (a) गैरी नीलसन (b) रॉबर्ट वेलेड (c) लुफ्ट और इंगम (d) पॉल कोल
33. निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का विषयवस्तु सिद्धांत है ?
 (a) ब्रूम प्रत्याशा (b) पोरटर और लौलर (c) लक्ष्य की स्थापना (d) सिद्धांत Z
34. निम्नलिखित में कौन सी नियन्त्रण की आधुनिक प्रणाली नहीं है ?
 (a) अवलोकन द्वारा नियन्त्रण (b) तानाशाही द्वारा नियन्त्रण
 (c) अभिप्रेरणा द्वारा नियन्त्रण (d) अपवाद द्वारा नियन्त्रण
35. पैरालैंग्वेज है
 (a) आँख से संपर्क (b) पोजिशनिंग (c) हाव-भाव (d) शब्द चयन
36. निम्न में कौन सा सम्प्रेषण अशाब्दिक सम्प्रेषण का रूप नहीं है ?
 (a) शारीरिक भाषा (b) भाषा प्रतिरूप (c) संकेत भाषा (d) लिखित सन्देश
37. निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की निगरानी एवं मूल्यांकन किया जाता है
 (a) आन्तरिक रूप से (b) बाह्य रूप से (c) विनियामक निकाय द्वारा (d) उपरोक्त सभी द्वारा
38. वह रिपोर्ट जो नियोजित तरीकों, अध्ययन की धारणाओं और निष्कर्षों की विस्तृत प्रस्तुति पर जोर देती है, वह कहलाती है
 (a) लोकप्रिय रिपोर्ट (b) तकनीकी रिपोर्ट (c) मौखिक रिपोर्ट (d) लिखित रिपोर्ट
39. "एक योजना सम्भावनाओं के विदोहन की युक्ति होती है।" यह कथन प्रस्तुत किया गया :
 (a) एलन द्वारा (b) टैरी द्वारा (c) न्यूमैन द्वारा (d) हर्ले द्वारा
40. निम्नलिखित में से कौन सी सफल बैठक की एक विशेषता नहीं है ?
 (a) कार्यक्रम (b) नेत्र सम्पर्क (c) बैठक का संचालन (d) अनौपचारिक भाषण
41. निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है :
 (a) स्थिरता/निरन्तरता (b) जवाबदेही (c) पारदर्शिता (d) लाभदायकता
42. निम्नलिखित में से कौन उन सभी कारकों से सम्बन्धित है जो संचार को बाधित करता है ?
 (a) बेतुका (b) भौतिक शोर (c) कहीं नहीं (d) कोई नहीं
43. निर्णय लेना निम्नलिखित में से किस कार्य में शामिल है ?
 (a) योजना बनाना (b) संगठन (c) नियंत्रण (d) उपरोक्त सभी
44. क्षैतिज संचार _____ के बीच होता है।
 (a) श्रेष्ठ से अधीनस्थ (b) अधीनस्थ से श्रेष्ठ
 (c) समान स्थिति वाले कर्मचारी (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
45. मौखिक सम्प्रेषण के औपचारिक प्रकार में सम्मिलित है
 (a) व्यावसायिक सभाओं में प्रस्तुति (b) कक्षा में व्याख्यान
 (c) (a) और (b) दोनों (d) सहकर्मियों के साथ गपशप

46. 'Carrot and Stick' is a method of
 (a) Traditional theory of Motivation
 (b) Traditional theory of Direction
 (c) Modern theory of Motivation
 (d) Modern theory of Controlling
47. The concept of functional organisation has been given by
 (a) Terry (b) Fayol (c) Appley (d) Taylor
48. Marketing mix is determined for the satisfaction of
 (a) Consumers (b) Government (c) Manufacturers (d) Distributors
49. The stage of new product development in which the product and marketing programmes are tested in realistic market setting is called
 (a) Business Analysis (b) Test Marketing
 (c) Concept Testing (d) None of the above
50. A green product is
 (a) A product green in colour
 (b) An environment friendly product
 (c) Both (a) and (b)
 (d) Neither (a) nor (b)
51. The goods for which customers have strong brand preference are called
 (a) Convenience goods (b) Shopping goods
 (c) Specialised goods (d) Luxury goods
52. Repositioning involves
 (a) Trading up
 (b) Trading down
 (c) Changing consumer's perception of a brand
 (d) None of the above
53. Traditional product life cycle has how many stages ?
 (a) Four (b) Five (c) Three (d) Six
54. Which of the following is the last stage of product life cycle ?
 (a) Growth (b) Introduction (c) Decline (d) Maturity
55. Products which have neither immediate appeal nor long run benefits are called
 (a) Pleasing products (b) Salutory products
 (c) Deficient products (d) Desirable products
56. Marketing mix remains
 (a) Static (b) Changing (c) Uncertain (d) Certain
57. In penetration pricing, a business firm seeks to access deeper market penetration by keeping prices _____.
 (a) high (b) competitive (c) low (d) moderate
58. The unique psychological characteristic that leads to relatively consistent and lasting responses to one's own environment is known as
 (a) Life style (b) Learning (c) Personality (d) Perception

46. 'केरेट एण्ड स्टिक' एक विधि है
 (a) अभिप्रेरण के पारम्परिक सिद्धांत की (b) निर्देशन के पारम्परिक सिद्धांत की
 (c) अभिप्रेरण के आधुनिक सिद्धांत की (d) नियंत्रण के आधुनिक सिद्धांत की
47. क्रियात्मक संगठन की अवधारणा प्रस्तुत की गयी है
 (a) टैरी द्वारा (b) फेयोल द्वारा (c) एप्पले द्वारा (d) टेलर द्वारा
48. विपणन मिश्रण निम्न की संतुष्टि के लिए निश्चित किया जाता है :
 (a) उपभोक्ताओं (b) सरकार (c) निर्माताओं (d) वितरकों
49. नए उत्पाद विकास का वह चरण, जिसमें उत्पाद और विपणन कार्यक्रमों का वास्तविक बाज़ार निर्धारण प्रक्रिया में परीक्षण किया जाता है, उसे कहते हैं :
 (a) व्यवसाय विश्लेषण (b) परीक्षण विपणन
 (c) अवधारणा परीक्षण (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
50. एक हरित उत्पाद है
 (a) हरे रंग का उत्पाद (b) पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद
 (c) (a) तथा (b) दोनों (d) न तो (a) और न ही (b)
51. वह वस्तुयें जिनके लिए उपभोक्ताओं में मजबूत ब्रांड प्राथमिकता रहती है, कहलाती हैं :
 (a) सुविधाजनक वस्तुयें (b) बिक्रीगत वस्तुयें
 (c) विशिष्ट वस्तुयें (d) विलासिता की वस्तुयें
52. रिपोजीशनिंग में क्या सम्मिलित है ?
 (a) ऊर्ध्वमुखी व्यापार (b) अधोमुखी व्यापार
 (c) ब्रांड के प्रति उपभोक्ता की सोच में बदलाव (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
53. पारम्परिक उत्पाद जीवन चक्र की कितनी अवस्थायें हैं ?
 (a) चार (b) पाँच (c) तीन (d) छः
54. निम्न में से उत्पाद जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या है ?
 (a) वृद्धि (b) प्रारंभ (c) गिरावट (d) परिपक्वता
55. ऐसे उत्पाद जिनका न तो तत्काल आकर्षण होता है और न ही दीर्घकालीन लाभ, वह कहलाते हैं :
 (a) मनभावन उत्पाद (b) लाभकारी उत्पाद
 (c) कमी वाले (अपूर्णता) उत्पाद (d) वांछनीय उत्पाद
56. विपणन मिश्रण रहते हैं :
 (a) स्थायी (b) परिवर्तनशील (c) अनिश्चित (d) निश्चित
57. पेनिट्रेशन मूल्य निर्धारण में, एक व्यावसायिक फर्म कौन सी कीमत रखकर बाज़ार में गहरी पैठ बनाना चाहती है ?
 (a) उच्च (b) प्रतिस्पर्धी (c) कम (d) सामान्य
58. एक ऐसी विलक्षित मनोवैज्ञानिक विशेषता जो अपने ही परिवेश को अपेक्षाकृत सुसंगत और स्थाई प्रतिक्रिया की ओर ले जाती है, कहलाती है :
 (a) जीवन-शैली (b) अधिगम (c) व्यक्तित्व (d) धारणा

59. Strategic control is the primary responsibility of
 (a) Top level management (b) Marketing controller
 (c) Line and staff management (d) Middle level management
60. The process of turning marketing plans into marketing actions in order to accomplish the strategic marketing objectives is called
 (a) Market Segmentation (b) Market Targeting
 (c) Market Implementation (d) Market Differentiation
61. Developing strategies and practices that create a world economy that the planet can support indefinitely is called
 (a) Environmental sustainability (b) Economic environment
 (c) Marketing environment (d) Engel's laws
62. Marketing strategies aim to reduce the demand temporarily or permanently, is known as
 (a) Synchro Marketing (b) Demarketing
 (c) Differential Marketing (d) Concentrated Marketing
63. Who propounded the concept of Ambush Marketing ?
 (a) Jerry Welsh (b) Philip Kotler
 (c) Peter F. Drucker (d) Gary Armstrong
64. STP work as a composite tool in marketing. What STP stands for ?
 (a) Strategy, Targeting, Profitability (b) Strategy, Targeting, Positioning
 (c) Segmentation, Targeting, Positioning (d) None of the above
65. The price skimming is an appropriate strategy when
 (a) there is high elasticity of demand.
 (b) firm has a new product in monopoly period.
 (c) market is in the state of perfect competition.
 (d) All of the above
66. The differential effect that knowing the brand name as on customers' response to the product or its marketing is known as
 (a) Branding (b) Brand strategy (c) Brand itself (d) Brand equity
67. Cultivating opinion leaders and getting them to spread information about a product or service to others in their communities is called as
 (a) Buzz marketing (b) Word-of-mouth influence
 (c) Non-personal communication (d) Integrated marketing communication
68. The act of establishing the accuracy of entries in the books of accounts is
 (a) Verification (b) Auditing (c) Vouching (d) Internal Audit
69. Which of the following is based on the principle of division of labour ?
 (a) Internal Control (b) Internal Checking
 (c) Internal Audit (d) None of the above
70. Which of the following is called charter of the company ?
 (a) Memorandum of Association (b) Article of Association
 (c) Prospectus (d) None of the above
71. In India, Balance Sheet Audit is synonymous to
 (a) Annual Audit (b) Continuous Audit (c) Detailed Audit (d) Statutory Audit
72. First auditor of the company is appointed by the
 (a) Shareholders (b) Central Government
 (c) Company Law Board (d) Board of Directors

59. रणनीतिक नियन्त्रण प्राथमिक उत्तरदायित्व है
 (a) शीर्ष स्तर प्रबन्धन का (b) विपणन नियंत्रक का
 (c) रेखीय और कर्मचारी प्रबन्धन का (d) मध्य स्तर प्रबन्धन का
60. रणनीतिक विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विपणन योजनाओं को विपणन कार्यों में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है
 (a) बाज़ार विभाजन (b) बाज़ार लक्ष्यीकरण (c) बाज़ार कार्यान्वयन (d) बाज़ार विभेदीकरण
61. ऐसी रणनीतियों एवं प्रथाओं को विकसित करना जो विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हों और जिन्हें यह परिवेश अनन्तकाल तक समर्थन दे, उन्हें कहा जाता है
 (a) पर्यावरणीय स्थिरता (b) आर्थिक पर्यावरण (c) विपणन पर्यावरण (d) एंजेल का नियम
62. विपणन रणनीतियों का उद्देश्य अस्थायी या स्थायी रूप से माँग को कम करना, कहलाता है :
 (a) सिन्क्रो मार्केटिंग (b) डीमार्केटिंग (c) विभेदक विपणन (d) केन्द्रित विपणन
63. एम्बुश विपणन की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है ?
 (a) जैरी वैल्श (b) फिलिप कोटलर (c) पीटर एफ. ड्रकर (d) गैरी आर्मस्ट्रांग
64. एस टी पी (STP) विपणन में समग्र उपकरण के रूप में काम करता है। एस टी पी (STP) का आशय है
 (a) रणनीति, लक्ष्यीकरण, लाभप्रदता (b) रणनीति, लक्ष्यीकरण, अवस्थितिकरण
 (c) विभाजन, लक्ष्यीकरण, अवस्थितिकरण (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
65. मूल्य स्किमिंग रणनीति उपयुक्त होती है, यदि :
 (a) माँग काफी लोचदार हो। (b) एकाधिकारी अवस्था में फर्म के पास नया उत्पाद हो।
 (c) बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा हो। (d) उपरोक्त सभी
66. उत्पाद या उसके विपणन के प्रति ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर ब्रांड नाम जानने के अन्तरीय विभेदक प्रभाव को कहा जाता है
 (a) ब्रांडिंग (b) ब्रांड रणनीति (c) स्वयं ब्रांड (d) ब्रांड इक्यूटी
67. राय बनाने वाले नेताओं को तैयार करना और उनके द्वारा अपने समुदायों में किसी उत्पाद या सेवा के बारे में दूसरों तक जानकारी पहुँचाना, कहलाता है
 (a) बज्र विपणन (b) मौखिक प्रभाव (c) गैर-व्यक्तिगत सम्प्रेषण (d) एकीकृत विपणन सम्प्रेषण
68. लेखे की पुस्तकों में परिशुद्धता के साथ प्रविष्टियाँ करने का कार्य है
 (a) सत्यापन (b) अंकेक्षण (c) प्रमाणन (d) आन्तरिक अंकेक्षण
69. निम्नांकित में से कौन श्रम-विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है ?
 (a) आन्तरिक नियंत्रण (b) आन्तरिक निरीक्षण (c) आन्तरिक अंकेक्षण (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
70. निम्नलिखित में से किसे कम्पनी का चार्टर कहा जाता है ?
 (a) पार्षद सीमानियम (b) पार्षद अन्तर्नियम (c) प्रविवरण (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
71. भारत में वित्तीय स्थिति विवरण अंकेक्षण का पर्याय है :
 (a) वार्षिक अंकेक्षण (b) सतत् अंकेक्षण (c) विस्तृत अंकेक्षण (d) सांविधिक अंकेक्षण
72. कम्पनी का पहला अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है
 (a) अंशधारियों द्वारा (b) केन्द्र सरकार द्वारा (c) कम्पनी लॉ बोर्ड द्वारा (d) निदेशक मण्डल द्वारा

73. Which of the following is not an audit risk ?
 (a) Inherent Risk (b) Detection Risk (c) Control Risk (d) Omission Risk
74. Valuation of assets is an important part of
 (a) Verification (b) Vouching (c) Book-keeping (d) Accounting
75. Who must satisfy himself that assets really existed at the date of the balance sheet ?
 (a) Manager (b) Book-keeper (c) Valuer (d) Auditor
76. Now SAPs are known as
 (a) Auditing Practices
 (b) Audit Standard
 (c) Audit Task
 (d) Auditing and Assurance Standards
77. Which of the following is related to Audit documentation ?
 (a) SA – 130 (b) SA – 200 (c) SA – 220 (d) SA – 230
78. Which of the following is not considered in the valuation of assets ?
 (a) Original cost (b) Working life of asset
 (c) Wear and tear of asset (d) Resale value
79. Who is responsible for maintaining effective internal financial control ?
 (a) Auditor (b) Shareholder (c) Investors (d) Management
80. Which of the following is fictitious asset ?
 (a) Goodwill (b) Copy Right
 (c) Preliminary Expenses (d) None of the above
81. Which of the following is an intangible asset ?
 (a) Patent Right (b) Prepaid Expenses
 (c) Preliminary Expenses (d) None of the above
82. Which of the following is valued at cost price or market price whichever is less ?
 (a) Stock (b) Goodwill
 (c) Machine (d) All of the above
83. Which of the following is not a type of audit report ?
 (a) Clean Report (b) Non-qualified Report
 (c) Qualified Report (d) Assessment Report
84. An auditor shall submit an unmodified report when the financial statements _____.
 (a) exhibit true and fair view (b) are partially correct
 (c) are incomplete (d) are unavailable
85. Identify constructive function of cost audit from the following.
 (a) Pinpointing deficiencies
 (b) Give suggestions for cost control
 (c) Detection of errors
 (d) Comparison with budgets
86. What kind of liabilities will arise on not giving correct information to the shareholders regarding Balance Sheet ?
 (a) Civil liabilities (b) Criminal liabilities
 (c) Both Civil and Criminal (d) None of the above

73. निम्न में से कौन सा एक अंकेक्षण जोखिम नहीं है ?
 (a) निहित जोखिम (b) पता लगाने का जोखिम (c) नियंत्रण जोखिम (d) चूक का जोखिम
74. सम्पत्तियों का मूल्यांकन एक आवश्यक अंग है
 (a) सत्यापन का (b) प्रमाणन का (c) पुस्तपालन का (d) लेखांकन का
75. किसको इस बात के लिए अपने आपको संतुष्ट करना चाहिए कि आर्थिक चिट्ठे की तिथि पर सम्पत्तियाँ वास्तव में विद्यमान हैं ?
 (a) प्रबन्धक को (b) पुस्तपालक को (c) मूल्यांकनकर्ता को (d) अंकेक्षक को
76. अब एस ए पी (SAPs) इस रूप में जाने जाते हैं :
 (a) अंकेक्षण व्यवहार (b) अंकेक्षण मानक (c) अंकेक्षण कार्य (d) अंकेक्षण व ऐसुरैस मानक
77. निम्न में से क्या अंकेक्षण प्रलेखन से संबंधित है ?
 (a) SA – 130 (b) SA – 200 (c) SA – 220 (d) SA – 230
78. सम्पत्तियों का मूल्यांकन करते समय निम्न में से किसे संज्ञान में नहीं लिया जाता है ?
 (a) मूल लागत (b) सम्पत्ति की कार्यशील आयु
 (c) सम्पत्ति की टूट-फूट (d) पुनर्विक्रय मूल्य
79. निम्न में कौन प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है ?
 (a) अंकेक्षक (b) अंशधारक (c) निवेशक (d) प्रबन्धन
80. निम्नलिखित में कौन कृत्रिम (काल्पनिक) सम्पत्ति है ?
 (a) ख्याति (b) कृति स्वामिस्व (c) प्रारम्भिक व्यय (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
81. निम्नलिखित में कौन अभौतिक सम्पत्ति है ?
 (a) एकस्व अधिकार (b) पूर्वदत्त व्यय (c) प्रारम्भिक व्यय (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
82. निम्नलिखित में किसका मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाज़ार मूल्य में जो कम हो उस पर किया जाता है ?
 (a) स्टॉक (b) ख्याति (c) मशीन (d) उपर्युक्त सभी
83. निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण रिपोर्ट का एक प्रकार नहीं है ?
 (a) स्वच्छ रिपोर्ट (b) अमर्यादित रिपोर्ट (c) मर्यादित रिपोर्ट (d) मूल्यांकन रिपोर्ट
84. एक अंकेक्षक को तब असंशोधित रिपोर्ट देनी चाहिए जब वित्तीय विवरण _____.
 (a) सत्य एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाते हों (b) आंशिक रूप से सही हों
 (c) अधूरे हों (d) अनुपलब्ध हों
85. निम्न में से लागत अंकेक्षण के रचनात्मक कार्य की पहचान कीजिये ।
 (a) कमियों को इंगित करना (b) लागत नियन्त्रण हेतु सुझाव देना
 (c) त्रुटियों का पता लगाना (d) बजट के साथ तुलना करना
86. आर्थिक चिट्ठे के विषय में अंशधारियों को सही सूचना न देने पर कैसा दायित्व उत्पन्न होगा ?
 (a) दीवानी दायित्व (b) सापराध दायित्व
 (c) दीवानी एवं सापराध दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

87. Which authority can appoint a company auditor for audit to its annual accounts ?
 (a) Appointment by company directors
 (b) Appointment in general meeting
 (c) Appointment by central government
 (d) All of the above
88. The relationship between price and quantity demanded in law of demand is
 (a) direct (b) indirect (c) inverse (d) All of the above
89. Which of the following is not the cause of operation of the law of demand ?
 (a) Law of diminishing marginal utility (b) Income effect
 (c) Substitution effect (d) Giffen's paradox
90. Reason of extension of supply is
 (a) increase in the price of goods.
 (b) more production of goods.
 (c) decrease in the price of goods.
 (d) change in the prices of other goods.
91. In case of monopoly equilibrium,
 (a) $AR = MR$ (b) $AR > MR$ (c) $AR < MR$ (d) $TR = TC$
92. Equilibrium Price is determined at a point where
 (a) Demand > Supply (b) Demand = Supply
 (c) Demand < Supply (d) Demand is half of supply
93. In short run, monopoly firms get
 (a) Normal profits (b) Abnormal profits
 (c) Losses (d) Any of the above
94. Thought of Inflationary Gap was introduced by
 (a) Samuelson (b) Keynes (c) Shepiro (d) Marshall
95. Generally under the monopoly, the cross elasticity of demand with other goods or services is
 (a) equal to one (b) very low (c) medium (d) very high
96. The total utility is maximum when
 (a) marginal utility is zero
 (b) marginal utility is the highest
 (c) average utility is the highest
 (d) marginal utility is equal to average utility
97. Dear money indicates :
 (a) Low prices (b) High rate of interest
 (c) High prices (d) Low rate of interest
98. A rise in money wages more rapidly than the productivity of labour results in
 (a) Demand pull inflation (b) Cost pull inflation
 (c) Hyper inflation (d) Inflationary gap
99. If X is inferior goods and Y is superior goods, the income consumption curve slope will be
 (a) positive (b) backward (c) negative (d) horizontal
100. Under which of the following form of market, the price and output policies of firms are interdependent ?
 (a) Oligopoly (b) Monopoly
 (c) Perfect competition (d) Monopolistic competition

87. किसी कम्पनी के वार्षिक खातों की जाँच के लिए किस अधिकारी द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है ?
 (a) कम्पनी के संचालकों द्वारा नियुक्ति (b) साधारण सभा में नियुक्ति
 (c) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति (d) उपरोक्त सभी
88. माँग के नियम के अन्तर्गत कीमत और माँग की मात्रा के बीच संबंध है
 (a) प्रत्यक्ष (b) अप्रत्यक्ष (c) विपरीत (d) उपरोक्त सभी
89. निम्नलिखित में से कौन सा माँग के नियम के संचालन का कारण नहीं है ?
 (a) क्रमागत सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम (b) आय प्रभाव
 (c) प्रतिस्थापन प्रभाव (d) गिफिन विरोधाभास
90. पूर्ति के विस्तार का कारण है
 (a) वस्तु की कीमत में वृद्धि (b) वस्तु का अधिक उत्पादन
 (c) वस्तु की कीमत में कमी (d) अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन
91. एकाधिकारी संतुलन की स्थिति में
 (a) $AR = MR$ (b) $AR > MR$ (c) $AR < MR$ (d) $TR = TC$
92. संतुलन मूल्य उस बिन्दु पर निर्धारित होता है, जहाँ :
 (a) माँग > पूर्ति (b) माँग = पूर्ति
 (c) माँग < पूर्ति (d) माँग पूर्ति का आधा होती है।
93. अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म को मिलता है
 (a) सामान्य लाभ (b) असामान्य लाभ (c) हानि (d) उपरोक्त में से कोई भी
94. स्फीतिक अन्तराल का विचार प्रस्तुत किया गया
 (a) सैम्युलसन द्वारा (b) केन्ज द्वारा (c) शेपिरो द्वारा (d) मार्शल द्वारा
95. आमतौर पर एकाधिकार के अन्तर्गत अन्य वस्तुओं या सेवाओं के साथ माँग की आड़ी लोच होती है
 (a) एक के बराबर (b) बहुत कम (c) मध्यम (d) बहुत अधिक
96. कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब
 (a) सीमान्त उपयोगिता शून्य हो। (b) सीमान्त उपयोगिता अधिकतम हो।
 (c) औसत उपयोगिता अधिकतम हो। (d) सीमान्त उपयोगिता और औसत उपयोगिता बराबर हों।
97. महँगी मुद्रा सूचक है
 (a) कम कीमतों की (b) उच्च ब्याज दर की (c) ऊँची कीमतों की (d) निम्न ब्याज दर की
98. श्रम की उत्पादकता की अपेक्षा मौद्रिक मजदूरी में तेजी से वृद्धि का परिणाम होता है :
 (a) माँग प्रेरित स्फीति (b) लागत प्रेरित स्फीति (c) अतिरेक स्फीति (d) स्फीतिक अंतराल
99. यदि X घटिया व Y श्रेष्ठ वस्तु हो, तो आय उपभोग वक्र का ढाल होगा
 (a) धनात्मक (b) पश्चवर्ती (c) ऋणात्मक (d) क्षैतिज
100. निम्नलिखित में से कौन से बाज़ार प्रारूप के अन्तर्गत फर्मों की कीमत एवं उत्पादन नीतियाँ एक-दूसरे पर निर्भर करती हैं ?
 (a) अल्पाधिकार (b) एकाधिकार
 (c) पूर्ण प्रतियोगिता (d) एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता

101. According to the Cournot's model of duopoly, each seller supplies a part equal to the market
 (a) $1/2$ (b) $1/4$ (c) $1/3$ (d) $1/5$
102. Which of the following is not a method of measurement of Price Elasticity of Demand ?
 (a) Net Outlay Method (b) Point Method
 (c) Proportionate Method (d) Total Outlay Method
103. A doctor may charge high fees from rich patients and lower fees from poor patients. It is an example of
 (a) Age discrimination (b) Size discrimination
 (c) Personal discrimination (d) Time discrimination
104. The innovation theory of business cycles is associated with
 (a) Prof. R.G. Hawtrey (b) J.M. Keynes
 (c) Joseph Schumpeter (d) J.R. Hicks
105. Supply and price have which type of relationship ?
 (a) Cross relationship (b) Direct relationship
 (c) Indirect relationship (d) All of the above
106. If Reserve Bank of India reduces the cash reserve ratio, what will happen to the credit creation ?
 (a) There will be no impact. (b) It will decrease.
 (c) It will increase. (d) None of the above
107. The technique of indifference curves was first propounded in 1881 by
 (a) Edgeworth (b) Hicks (c) Allen (d) Pareto
108. LPG is related with
 (a) Liberalisation (b) Privatisation (c) Globalisation (d) All of the above
109. Which organisation is not included in the World Bank Group ?
 (a) I.M.F. (b) I.B.R.D. (c) I.F.C. (d) I.D.A.
110. The European Union (EU) was formed in _____.
 (a) 1956 (b) 1957 (c) 1973 (d) 1995
111. NAFTA is the extension of
 (a) P.F.I. (b) F.T.A. (c) ASEAN (d) CUSFTA
112. Policies of economic reforms started in _____.
 (a) 1991 (b) 1993 (c) 1994 (d) 1995
113. The General Agreement on Tariff and Trade (GATT) came into effect
 (a) 1947 (b) 1950 (c) 1948 (d) 1951
114. The World Trade Organisation has replaced the :
 (a) GATT (b) I.M.F. (c) I.B.R.D. (d) I.F.C.
115. Mexico had joined the NAFTA in the year _____.
 (a) 1990 (b) 1991 (c) 1992 (d) 1993
116. The International Finance Corporation was established in the year _____.
 (a) 1960 (b) 1982 (c) 1956 (d) 1953

101. कूर्नोट के द्विधाधिकार मॉडल के अनुसार, प्रत्येक विक्रेता बाज़ार के निम्न भाग की आपूर्ति करता है :
 (a) 1/2 (b) 1/4 (c) 1/3 (d) 1/5
102. निम्नलिखित में से कौन सी माँग की कीमत लोच के मापन की एक विधि नहीं है ?
 (a) शुद्ध व्यय विधि (b) बिन्दु विधि (c) आनुपातिक विधि (d) कुल व्यय विधि
103. एक डॉक्टर धनी रोगियों से ज्यादा फीस और गरीब रोगियों से कम फीस ले सकता है। यह एक उदाहरण है
 (a) आयु विभेद का (b) आकार विभेद का (c) व्यक्तिगत विभेद का (d) समय विभेद का
104. व्यापार चक्रों का नवप्रवर्तन सिद्धान्त संबंधित है
 (a) प्रो. आर.जी. हॉट्टे से (b) जे.एम. केन्ज से
 (c) जोसेफ शुम्पीटर से (d) जे.आर. हिक्स से
105. पूर्ति और कीमत में किस प्रकार का संबंध है ?
 (a) क्रॉस संबंध (b) प्रत्यक्ष संबंध (c) अप्रत्यक्ष संबंध (d) उपरोक्त सभी
106. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में कमी कर देता है, तो साख सृजन पर इसका क्या असर पड़ेगा ?
 (a) कोई असर नहीं पड़ेगा। (b) यह घटेगा।
 (c) यह बढ़ेगा। (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
107. उदासीनता वक्रों की तकनीक का 1881 में सर्वप्रथम निम्न द्वारा प्रतिपादन किया गया था :
 (a) एजवर्थ (b) हिक्स (c) एलेन (d) परेडो
108. एल.पी.जी. (LPG) सम्बंधित है
 (a) उदारीकरण (b) निजीकरण (c) वैश्वीकरण (d) उपरोक्त सभी
109. विश्व बैंक समूह के अधीन कौन सा संगठन सम्मिलित नहीं है ?
 (a) आई.एम.एफ. (b) आई.बी.आर.डी. (c) आई.एफ.सी. (d) आई.डी.ए.
110. यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी
 (a) 1956 में (b) 1957 में (c) 1973 में (d) 1995 में
111. नाफ्टा विस्तार है
 (a) पी.एफ.आई. का (b) एफ.टी.ए. का (c) ए.एस.ई.ए.एन. का (d) सी.यू.एस.एफ.टी.ए. का
112. आर्थिक सुधार से संबंधित नीतियाँ प्रारम्भ की गयी
 (a) 1991 में (b) 1993 में (c) 1994 में (d) 1995 में
113. प्रशुल्क दरों एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (गैट) प्रभाव में आया था
 (a) 1947 में (b) 1950 में (c) 1948 में (d) 1951 में
114. विश्व व्यापार संगठन ने प्रतिस्थापित किया
 (a) गैट को (b) आई.एम.एफ. को (c) आई.बी.आर.डी. को (d) आई.एफ.सी. को
115. मेक्सिको को इस वर्ष नाफ्टा में शामिल किया गया था :
 (a) 1990 (b) 1991 (c) 1992 (d) 1993
116. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम वर्ष _____ स्थापित हुआ था।
 (a) 1960 में (b) 1982 में (c) 1956 में (d) 1953 में

117. Balance of Payment adopts
 (a) Single Entry System (b) Double Entry System
 (c) Cash System (d) Triple Entry System
118. Starbucks F.D.I. is related with
 (a) Mobile phone (b) Tour and Travel
 (c) Premium Coffee (d) Medical Products
119. 'Borrowings from foreigners' are known as
 (a) Capital receipts (b) Unrequired receipts
 (c) Current receipts (d) Bad debts
120. Foreign exchange transactions are controlled by
 (a) FERA (b) FEMA
 (c) R.B.I. (d) Ministry of Finance
121. Under the current account of the balance of payment does not include
 (a) Import of goods
 (b) Export of goods
 (c) Export of services
 (d) Borrowing from foreign countries
122. Which of the following currency is not a part of the basket of 'Special Drawing Rights' (SDRs) valuation ?
 (a) U.S. Dollar (b) Euro (c) I.N.R. (d) Pound Sterling
123. Which of the following approach holds that a country can increase its wealth by encouraging exports and discouraging imports ?
 (a) Capitalism (b) Socialism (c) Mercantilism (d) Laissez Faire
124. The main objective of International Monetary Fund (IMF) is _____.
 (a) flexible exchange rate
 (b) correcting disequilibrium in Balance of Payments
 (c) employment promotion
 (d) stable exchange rate
125. In the Balance of Payments, 'Transfer payments' are included in the _____.
 (a) Current Account (b) Service Account
 (c) Capital Account (d) Official Resources Account
126. A deliberate downward adjustment in the value of a country's currency relative to another currency is known as
 (a) Revaluation (b) Appreciation (c) Devaluation (d) Demonetisation
127. Where was the 13th Ministerial Conference of the World Trade Organization held ?
 (a) Singapore (b) Abu Dhabi (c) Indonesia (d) Geneva
128. From the following, an example of qualitative data is
 (a) Deafness (b) Distance (c) Height (d) Weight
129. Variance Ratio Test is called
 (a) t-Test (b) F-Test (c) Z-Test (d) χ^2 -Test
130. 'Lorentz Curve' is used to depict the following :
 (a) Dispersion (b) Skewness (c) Correlation (d) Regression
131. In a series, mode and median are respectively 13 and 11, the value of mean will be
 (a) 9 (b) 10 (c) 11 (d) 12

117. भुगतान संतुलन में अपनायी जाती है
 (a) एकल लेखा प्रणाली (b) दोहरा लेखा प्रणाली
 (c) रोकड़ प्रणाली (d) तिहरी लेखा प्रणाली
118. स्टारबक्स एफ.डी.आई. संबंधित है
 (a) मोबाइल फोन से (b) टूर एण्ड ट्रैवल से (c) प्रीमियम कॉफी से (d) चिकित्सा उत्पादों से
119. 'विदेशियों से उधार' को जाना जाता है
 (a) पूँजीगत प्राप्तियाँ (b) अवांछित प्राप्तियाँ (c) चालू प्राप्तियाँ (d) अशोध्य ऋण
120. विदेशी विनिमय व्यवहार किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं ?
 (a) फेरा (FERA) (b) फेमा (FEMA) (c) आर.बी.आई. (d) वित्त मंत्रालय
121. भुगतान सन्तुलन के अन्तर्गत चालू खाते में शामिल नहीं है :
 (a) माल का आयात (b) माल का निर्यात (c) सेवाओं का निर्यात (d) विदेशों से उधार लेना
122. निम्नलिखित में से कौन सी एक मुद्रा 'विशेष आहरण अधिकार' (एस.डी.आर.) के मूल्यांकन की पिटारी का भाग नहीं है ?
 (a) यू.एस. डॉलर (b) यूरो (c) आई.एन.आर. (d) पाउण्ड स्टर्लिंग
123. एक देश अपनी अर्थ सम्पदा, निर्यात को बढ़ावा व आयात को हतोत्साहित करके बढ़ा सकता है, यह दृष्टिकोण है
 (a) पूँजीवाद (b) समाजवाद (c) व्यापारवाद (d) अहस्तक्षेप नीति
124. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का मुख्य उद्देश्य है
 (a) विनिमय दर परिवर्तनशील करना (b) भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करना ।
 (c) रोजगार संवर्द्धन (d) विनिमय दर स्थिर करना
125. 'स्थानान्तरित भुगतान' भुगतान संतुलन में सम्मिलित होते हैं
 (a) चालू खाते में (b) सेवा खाते में
 (c) पूँजी खाते में (d) कार्यालय संसाधन खाते में
126. एक देश द्वारा जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य नीचे की ओर समायोजित करना, कहलाता है :
 (a) पुनर्मूल्यांकन (b) अधिमूल्यांकन (c) अवमूल्यन (d) विमुद्रीकरण
127. विश्व व्यापार संगठन का तेरहवाँ मंत्री-स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर सम्पन्न हुआ था ?
 (a) सिंगापुर (b) आबू धाबी (c) इण्डोनेशिया (d) जेनेवा
128. निम्नलिखित में से गुणात्मक समंक का एक उदाहरण है :
 (a) बहरापन (b) दूरी (c) लम्बाई (d) वजन
129. विचरण अनुपात परीक्षण कहा जाता है
 (a) 'टी' परीक्षण को (b) 'एफ' परीक्षण को (c) 'जेड' परीक्षण को (d) 'काई-वर्ग' परीक्षण को
130. 'लॉरेंज वक्र' का प्रयोग निम्न को दर्शाने में होता है :
 (a) अपकिरण (b) विषमता (c) सहसम्बन्ध (d) प्रतीपगमन
131. एक शृंखला में बहुलक तथा माध्यिका क्रमशः 13 एवं 11 हैं, माध्य का मान होगा :
 (a) 9 (b) 10 (c) 11 (d) 12

132. If two regression co-efficients are 2 and 0.45, the value of r will be
 (a) 0.95 (b) 9.50 (c) 95 (d) 0.095
133. Algebraic sum of deviations from mean is
 (a) negative (b) positive
 (c) zero (d) different for each case
134. Grouping method is used in
 (a) Mean (b) Median
 (c) Mode (d) Weighted Mean
135. Degree of Freedom in a 3×4 contingency table will be
 (a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 8
136. The index for the base year is assumed as
 (a) 1 (b) 10 (c) 100 (d) 1000
137. A sample size is said to be small when it is
 (a) >30 (b) <30 (c) >40 (d) <50
138. If two regression lines cut each other at right angle, the value of r will be
 (a) +1 (b) -1 (c) =1 (d) zero
139. Select the correct equation.
 (a) $\text{Mode} = 2 \text{ Median} - 3 \text{ Mean}$ (b) $\text{Median} = 2 \text{ Mode} - 2 \text{ Mean}$
 (c) $\text{Mean} = 3 \text{ Median} - \text{Mode}$ (d) $\text{Mode} = 3 \text{ Median} - 2 \text{ Mean}$
140. Prosperity, Recession, Depression and Recovery are stages of
 (a) Secular Trend (b) Seasonal Variations
 (c) Cyclical Variations (d) Random Variations
141. The Standard Deviation of a binomial distribution depends on
 (a) Probability of success (b) Probability of failure
 (c) Number of trials (d) All of the above
142. The two regression lines cut each other
 (a) at the point of $\bar{X}$ only (b) at the point of $\bar{Y}$ only
 (c) at the point of $\bar{X}$ and $\bar{Y}$ (d) at any point
143. From the following, which one is the mathematical average ?
 (a) Geometric Mean (b) Median
 (c) Mode (d) Composite average
144. Which of the following is a measure of central tendency ?
 (a) Skewness (b) Deviation (c) Median (d) Regression
145. Standard Deviation is measured from
 (a) Mean (b) Median (c) Mode (d) Zero
146. Primary data as compared to secondary data are
 (a) reliable (b) less reliable
 (c) more reliable (d) equally reliable

132. यदि दो प्रतीपगमन गुणांक 2 और 0.45 हैं, तो r का मान होगा :
 (a) 0.95 (b) 9.50 (c) 95 (d) 0.095
133. माध्य से लिए विचलनों का बीजगणितीय योग है
 (a) ऋणात्मक (b) धनात्मक (c) शून्य (d) प्रत्येक केस में भिन्न
134. समूहन रीति का प्रयोग किया जाता है :
 (a) औसत माध्य में (b) माधिका में (c) बहुलक में (d) भारित माध्य में
135. एक 3×4 आसंग सारिणी में स्वातंत्र्यांश होगा
 (a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 8
136. आधार वर्ष के लिए सूचकांक माना जाता है :
 (a) 1 (b) 10 (c) 100 (d) 1000
137. एक प्रतिदर्श आकार को लघु प्रतिदर्श कहा जाता है, जब वह है
 (a) >30 (b) <30 (c) >40 (d) <50
138. यदि दो प्रतीपगमन रेखाएँ एक-दूसरे को समकोण पर काटें, तो r का मान होगा
 (a) +1 (b) -1 (c) =1 (d) शून्य
139. सही समीकरण का चयन करें।
 (a) बहुलक = 2 माधिका - 3 माध्य (b) माधिका = 2 बहुलक - 2 माध्य
 (c) माध्य = 3 माधिका - बहुलक (d) बहुलक = 3 माधिका - 2 माध्य
140. समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद एवं पुनरुत्थान अवस्थाएँ हैं :
 (a) सुदीर्घकालीन उपनति की (b) मौसमी विचरण की
 (c) चक्रीय विचरण की (d) दैव विचरण की
141. एक द्विपद वितरण का प्रमाप विचलन किस पर निर्भर करता है ?
 (a) सफलता की प्रायिकता (b) असफलता की प्रायिकता
 (c) परीक्षणों की संख्या (d) उपरोक्त सभी
142. दो प्रतीपगमन रेखाएँ एक-दूसरे को काटती हैं :
 (a) केवल $\bar{X}$ बिन्दु पर (b) केवल $\bar{Y}$ बिन्दु पर (c) $\bar{X}$ और $\bar{Y}$ बिन्दु पर (d) किसी भी बिन्दु पर
143. निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय माध्य है ?
 (a) गुणोत्तर माध्य (b) माधिका (c) भूयिष्ठक (d) संग्रथित माध्य
144. निम्नलिखित में से कौन सा केन्द्रीय प्रवृत्ति का एक माप है ?
 (a) विषमता (b) विचलन (c) माधिका (d) प्रतीपगमन
145. प्रमाप विचलन निम्न से मापा जाता है :
 (a) माध्य (b) माधिका (c) बहुलक (d) शून्य
146. प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक की तुलना में हैं :
 (a) विश्वसनीय (b) कम विश्वसनीय (c) अधिक विश्वसनीय (d) एकसमान विश्वसनीय

147. The formula

$$P_{01} = \sqrt{\frac{\sum p_1 q_0 \times \sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0 \times \sum p_0 q_1}} \times 100$$

is given by

- (a) Bowley (b) Galton (c) Fisher (d) Carli

148. If null hypothesis is accepted, it means

- (a) alternative hypothesis is rejected.
(b) alternative hypothesis is accepted.
(c) there is an error in analysing data.
(d) the analyst is efficient in analysing the data.

149. Which of the following is not the source of secondary data ?

- (a) Publication of Central Government
(b) Publication of State Government
(c) Data published in Newspapers
(d) Data obtained by a firm in a market survey

150. Chi-square (χ^2) test was first used by

- (a) R.A. Fisher (b) Karl Pearson (c) Bernoulli (d) Lagrange

151. Test of significance for large samples is

- (a) t-test (b) F-test (c) Z-test (d) χ^2 -test

152. Which of the following is not a component of a time series ?

- (a) Secular trend (b) Seasonal variations
(c) Cyclical variations (d) Regular variations

153. The formula to compute probable error of 'r' is

- (a) $0.6745 (1 - r)^2$ (b) $0.6745 \left(\frac{1 - r^2}{N} \right)$ (c) $0.6745 (1 + r^2)$ (d) $0.6745 \left(\frac{1 - r}{N} \right)$

154. If the value of the P is very small and the value of n is very large, the useful distribution will be

- (a) Binomial distribution (b) Poisson distribution
(c) Normal distribution (d) None of the above

155. Correlation will be positive if with an increase in the value of X

- (a) the value of Y decreases
(b) the value of Y increases
(c) the value of Y remains unchanged
(d) None of the above

156. The scatter in a series of values about the average is called _____.

- (a) Central tendency (b) Dispersion
(c) Skewness (d) Symmetry

157. The credit of developing t-test goes to

- (a) William Gosset (b) Crowther (c) Karl Pearson (d) Newton

147. सूत्र $P_{01} = \sqrt{\frac{\sum p_1 q_0 \times \sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0 \times \sum p_0 q_1}} \times 100$ दिया गया है :

- (a) बाउले द्वारा (b) गैल्टन द्वारा
(c) फिशर द्वारा (d) कार्ली द्वारा

148. यदि शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है, तब इसका अर्थ है -

- (a) वैकल्पिक परिकल्पना अस्वीकृत हो गयी है। (b) वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकृत हो गयी है।
(c) विश्लेषित समकों में कोई गलती है। (d) विश्लेषक, आँकड़ों के विश्लेषण में कुशल है।

149. निम्न में से कौन सा द्वितीयक समकों का स्रोत नहीं है ?

- (a) केन्द्रीय सरकार के प्रकाशन
(b) राज्य सरकार के प्रकाशन
(c) समाचार-पत्रों में प्रकाशित समंक
(d) एक फर्म द्वारा बाज़ार सर्वेक्षण पर आधारित प्राप्त समंक

150. काई-वर्ग (χ^2) परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था :

- (a) आर.ए. फिशर द्वारा (b) कार्ल पियर्सन द्वारा (c) बनौली द्वारा (d) लाप्रेन्ज द्वारा

151. बड़े प्रतिदर्शों के लिए सार्थकता परीक्षण होता है :

- (a) t-परीक्षण (b) F-परीक्षण (c) Z-परीक्षण (d) χ^2 -परीक्षण

152. निम्नलिखित में से कौन सा काल श्रेणी का एक घटक नहीं है ?

- (a) सुदीर्घकालीन उपनति (b) मौसमी विचरण
(c) चक्रीय विचरण (d) नियमित विचरण

153. 'r' के संभाव्य विभ्रम की गणना करने का सूत्र होता है

- (a) $0.6745 (1 - r)^2$ (b) $0.6745 \left(\frac{1 - r^2}{N} \right)$
(c) $0.6745 (1 + r^2)$ (d) $0.6745 \left(\frac{1 - r}{N} \right)$

154. यदि P का मूल्य बहुत छोटा तथा n का मूल्य बहुत बड़ा हो, तो उपयुक्त आवृत्ति वितरण होगा :

- (a) द्विपद बंटन (b) प्वासों बंटन (c) प्रसामान्य बंटन (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

155. सह-सम्बन्ध धनात्मक होगा यदि X के मान में वृद्धि होने पर

- (a) Y का मूल्य गिरता है। (b) Y का मूल्य बढ़ता है।
(c) Y का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

156. औसत के संबंध में मूल्यों (वैल्यूज) की श्रृंखला में बिखराव को कहा जाता है

- (a) केन्द्रीय प्रवृत्ति (b) अपकिरण (c) विषमता (d) समरूपता

157. t-परीक्षण को बनाने का श्रेय जाता है :

- (a) विलियम गोसेट को (b) क्राउथर को (c) कार्ल पियर्सन को (d) न्यूटन को

158. If closing stock has been recorded in Trial Balance, then it will be shown in
 (a) Balance Sheet
 (b) Trading Account
 (c) Both in Trading Account and Balance Sheet
 (d) Profit and Loss Account
159. Appearance of contingent liabilities as a foot note in the Balance Sheet is based on which of the following accounting principle ?
 (a) Convention of Conservatism (b) Convention of Disclosure
 (c) Convention of Consistency (d) Cost Concept
160. Under which of the following method of depreciation, the value of an asset can be reduced to zero ?
 (a) Fixed Instalment Method (b) Diminishing Balance Method
 (c) Machine Hour Rate Method (d) Annuity Method
161. Which of the following is not a qualitative characteristic of financial statements ?
 (a) Reliability (b) Accuracy (c) Understandability (d) Materiality
162. Collection of debtors _____.
 (a) increases current ratio (b) decreases current ratio
 (c) has no effect on the current ratio (d) increases fixed assets
163. A large amount spent on special advertisement is
 (a) Capital expenditure (b) Revenue expenditure
 (c) Revenue loss (d) Deferred revenue expenditure
164. The policy "Anticipate no profit and provide for all possible losses" arises due to
 (a) Convention of consistency (b) Convention of conservatism
 (c) Convention of disclosure (d) Convention of practicability
165. Which one of the following is an example of current liabilities ?
 (a) Capital (b) Bank Overdraft
 (c) 16% Debentures (d) Share Premium Account
166. Amount received on sale of old newspaper is
 (a) Capital Receipt (b) Revenue Receipt (c) Deferred Revenue (d) Both (a) and (c)
167. The amount of depreciation depends upon
 (a) Historical cost (b) Expected useful life
 (c) Estimated residual value (d) All of the above
168. Under Annuity method of valuation of goodwill, the rate of annuity is multiplied by the following profit of the company :
 (a) Net profit (b) Average future maintainable profit
 (c) Super profit (d) Normal profit
169. Decrease in creditors is a
 (a) Cash inflow from operating activities.
 (b) Cash inflow from investing activities.
 (c) Cash outflow from financing activities.
 (d) Cash outflow from operating activities.
170. Interest Coverage Ratio defines a relationship between
 (a) Net profit and total interest payable by the firm.
 (b) Earnings Before Interest and Tax and fixed interest charges.
 (c) Net profit and fixed interest charges.
 (d) Earnings Before Interest and Tax and total interest payable by the firm.

158. यदि अन्तिम रहितये को तलपट में अभिलेखित किया गया हो, तो इसे दिखाया जायेगा
 (a) आर्थिक चिट्ठे में (b) व्यापारिक खाते में
 (c) व्यापारिक खाते एवं आर्थिक चिट्ठे दोनों में (d) लाभ-हानि खाते में
159. सम्भाव्य दायित्वों को आर्थिक चिट्ठे में टिप्पणी के रूप में दिखाया जाना किस सिद्धान्त पर आधारित है ?
 (a) रूढ़िवादिता की परम्परा (b) प्रकटीकरण की परम्परा
 (c) एकरूपता की परम्परा (d) लागत अवधारणा
160. निम्नलिखित में से मूल्यहास की किस विधि के अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्य घटकर शून्य हो सकता है ?
 (a) स्थायी किश्त विधि (b) क्रमागत हास विधि (c) मशीन घंटा दर विधि (d) वार्षिकी विधि
161. वित्तीय विवरणों की निम्नलिखित में से कौन सी एक गुणात्मक विशेषता नहीं है ?
 (a) विश्वसनीयता (b) परिशुद्धता (c) बोधगम्यता (d) प्रमुखता (सारगर्भिता)
162. देनदारों का संग्रह _____
 (a) चालू अनुपात बढ़ाता है। (b) चालू अनुपात घटाता है।
 (c) चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। (d) स्थायी सम्पत्तियों को बढ़ाता है।
163. बड़ी धनराशि में किया गया विशेष विज्ञापन व्यय है
 (a) पूँजीगत व्यय (b) आगम व्यय (c) आगम हानि (d) आस्थगित आगम व्यय
164. “लाभ की आशा न करें और सभी संभाव्य हानियों के लिए प्रावधान करें” इस नीति का कारण है :
 (a) समानता की परम्परा (b) रूढ़िवादिता की परम्परा (c) प्रदर्शन की परम्परा (d) व्यावहारिकता की परम्परा
165. निम्नलिखित में से कौन सा एक चालू दायित्वों का उदाहरण है ?
 (a) पूँजी (b) बैंक ओवरड्राफ्ट (c) 16% ऋणपत्र (d) अंश प्रब्याजी खाता
166. पुराने समाचार-पत्रों की बिक्री पर प्राप्त धनराशि है
 (a) पूँजीगत प्राप्ति (b) आयगत प्राप्ति (c) आस्थगित आयगत (d) (a) तथा (c) दोनों
167. हास की धनराशि निर्भर करती है
 (a) ऐतिहासिक लागत पर (b) अनुमानित उपयोगी जीवन पर
 (c) अनुमानित अवशिष्ट मूल्य पर (d) उपरोक्त सभी
168. ख्याति मूल्यांकन की वार्षिकी विधि के अन्तर्गत, वार्षिकी की दर को कम्पनी के निम्नलिखित लाभ से गुणा किया जाता है :
 (a) शुद्ध लाभ (b) भविष्य में बने रहने योग्य औसत लाभ
 (c) अधिलाभ (d) सामान्य लाभ
169. लेनदारों में कमी है
 (a) परिचालन गतिविधियों से रोकड़ अन्तर्प्रवाह (b) निवेश गतिविधियों से रोकड़ अन्तर्प्रवाह
 (c) वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ बहिर्प्रवाह (d) परिचालन गतिविधियों से रोकड़ बहिर्प्रवाह
170. ब्याज आवरण अनुपात निम्न के मध्य संबंध को परिभाषित करता है :
 (a) शुद्ध लाभ एवं फर्म द्वारा देय कुल ब्याज (b) कर एवं ब्याज पूर्व आय एवं स्थिर ब्याज प्रभार
 (c) शुद्ध लाभ एवं स्थिर ब्याज प्रभार (d) कर एवं ब्याज पूर्व आय एवं फर्म द्वारा देय कुल ब्याज

171. Premium payable on redemption of debentures is credited to
 (a) Security Premium Account
 (b) Capital Reserve Account
 (c) Premium on Redemption of Debentures Account
 (d) Debenture Redemption Reserve Account
172. According to AS-14, the pooling of assets and liabilities of the transferor and transferee companies as combined entities is done under the process of
 (a) Amalgamation in the nature of merger
 (b) Amalgamation in the nature of purchase
 (c) Both (a) and (b)
 (d) Absorption of company
173. On liquidation of a company, the following item does not contribute to the deficiency :
 (a) Payment of dividends and bonus
 (b) Non-trading incomes and profits
 (c) Trading losses
 (d) Loss on realization of debtors
174. Which of the following techniques is used to assess the difference between standard cost and actual cost ?
 (a) Break Even Analysis
 (b) Variance Analysis
 (c) Profit Volume Analysis
 (d) Ratio Analysis
175. While preparing Funds Flow Statement, the adjustment for non-operating incomes is done in
 (a) Schedule of change in working capital
 (b) Statement of funds from operation
 (c) Funds flow statement
 (d) Both (b) and (c)
176. Under Responsibility Accounting, the divisions are established on the basis of the following form of organisational structure :
 (a) Line Organisation
 (b) Functional Organisation
 (c) Committee Organisation
 (d) Line and Staff Organisation
177. On redemption of debentures, the balance of Sinking Fund Account is transferred to
 (a) Statement of Profit and Loss
 (b) Sinking Fund Investment A/c
 (c) Capital Reserve A/c
 (d) General Reserve A/c
178. Security premium money can be used for
 (a) payment of dividend
 (b) writing off goodwill
 (c) issue of fully paid bonus shares
 (d) salary of manager
179. In the company Balance Sheet, Debentures (having floating charge) are shown under
 (a) Secured loans
 (b) Unsecured loans
 (c) Outstanding liabilities
 (d) Short-term loans
180. Forfeiture of shares means
 (a) Cancellation of the allotment of shares
 (b) Conversion of partly paid shares into fully paid shares
 (c) Buy-back of shares
 (d) Re-issue of shares
181. Divisible profit does not include
 (a) Workman's Compensation Fund
 (b) Insurance Fund
 (c) Reserve Fund
 (d) Revaluation Reserve

171. ऋणपत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है
 (a) प्रतिभूति प्रब्याजी खाते में (b) पूँजी संचय खाते में
 (c) ऋणपत्रों के शोधन पर प्रब्याजी खाते में (d) ऋणपत्र शोधन संचय खाते में
172. लेखांकन मानक-14 के अनुसार, सम्मिश्रित संस्थाओं के रूप में हस्तान्तरणकर्ता एवं हस्तान्तरिती कम्पनियों की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का समूहीकरण निम्न प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है :
 (a) विलय की प्रकृति में एकीकरण में (b) क्रय की प्रकृति में एकीकरण में
 (c) (a) एवं (b) दोनों में (d) कम्पनी के संविलयन में
173. किसी कम्पनी के समापन पर निम्नलिखित मद कमी के लिए योगदान नहीं करती :
 (a) लाभांश एवं बोनस का भुगतान (b) गैर-व्यापारिक आय एवं लाभ
 (c) व्यापारिक हानियाँ (d) देनदारों से वसूली पर हानि
174. प्रमाप लागत एवं वास्तविक लागत के मध्य अन्तर का निर्धारण निम्नांकित तकनीक द्वारा किया जाता है :
 (a) समविच्छेद विश्लेषण (b) विचरण विश्लेषण (c) लाभ-मात्रा विश्लेषण (d) अनुपात विश्लेषण
175. कोष प्रवाह विवरण तैयार करते समय गैर-परिचालन आयों का समायोजन निम्न में किया जाता है :
 (a) कार्यशील पूँजी में परिवर्तन की अनुसूची (b) परिचालन से कोष का विवरण
 (c) कोष प्रवाह विवरण (d) (b) तथा (c) दोनों
176. उत्तरदायित्व लेखांकन के अन्तर्गत प्रभागों की स्थापना संगठनात्मक संरचना के निम्नलिखित प्रारूप के आधार पर की जाती है :
 (a) रेखीय संगठन (b) कार्यात्मक संगठन
 (c) समिति संगठन (d) रेखीय एवं कर्मचारी संगठन
177. ऋणपत्रों के शोधन पर सिंकिंग फण्ड खाते का शेष स्थानान्तरित किया जाता है -
 (a) लाभ-हानि विवरण में (b) सिंकिंग फण्ड विनियोग खाते में
 (c) पूँजी संचिति खाते में (d) सामान्य संचिति खाते में
178. प्रतिभूति प्रब्याजी की धनराशि को प्रयोग किया जा सकता है :
 (a) लाभांश के भुगतान हेतु (b) ख्याति के अपलेखन हेतु
 (c) पूर्णतः प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन हेतु (d) प्रबन्धक के वेतन हेतु
179. किसी कम्पनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋणपत्रों (चल प्रभार वाले) को दर्शाया जाता है :
 (a) सुरक्षित ऋण के अन्तर्गत (b) असुरक्षित ऋण के अन्तर्गत
 (c) अदत्त दायित्वों के अन्तर्गत (d) अल्पकालीन ऋण के अन्तर्गत
180. अंशों के हरण से तात्पर्य है
 (a) अंशों के आबंटन का निरस्तीकरण (b) अंशदत्त अंशों का पूर्णदत्त अंशों में परिवर्तन
 (c) अंशों का पुनर्क्रय (d) अंशों का पुनर्निर्गमन
181. विभाजन योग्य लाभों में सम्मिलित नहीं है
 (a) कर्मचारी का क्षतिपूर्ति कोष (b) बीमा कोष
 (c) संचय कोष (d) पुनर्मूल्यांकन संचय

- 182.** As per SEBI norms, the application money per share must be at least of the issue price of
 (a) 25% (b) 20% (c) 15% (d) 5%
- 183.** The major purpose of zero-base budgeting is
 (a) to improve efficiency of decisions
 (b) to set the budget targets
 (c) to monitor the financial performance
 (d) to allocate the financial resources
- 184.** Standard costing is a tool of
 (a) Measurement of efficiency (b) Profit planning
 (c) Ascertainment of Total Cost (d) Price fixation
- 185.** What will be the effect on B.E.P. by the increase in fixed cost ?
 (a) Decrease (b) Increase
 (c) No change (d) Partly decrease
- 186.** Which of the following is not treated as uses of funds ?
 (a) Loss from operation (b) Payment of dividend in cash
 (c) Redemption of capital in cash (d) Sale of fixed assets for cash
- 187.** Given –
 Sales : ₹ 80,000
 Profit : ₹ 20,000
 Variable cost : ₹ 40,000
 The amount of fixed cost will be
 (a) ₹ 30,000 (b) ₹ 25,000 (c) ₹ 20,000 (d) ₹ 15,000
- 188.** Which of the following is not a step of performance budgeting ?
 (a) Establishment of responsibility centres
 (b) Setting of performance targets
 (c) Comparison of actual performance with budgeted targets
 (d) Establishment of a budget committee
- 189.** Given :
 Net profit before tax : ₹ 1,00,000
 Depreciation : ₹ 1,40,000
 Loss on sale of machinery : ₹ 30,000
 Sale of machinery : ₹ 50,000
 Cash flow from operating activities will be
 (a) ₹ 2,70,000 (b) ₹ 3,20,000 (c) ₹ 2,20,000 (d) ₹ 1,90,000
- 190.** Which of the following is not an assumption of Break Even Analysis ?
 (a) Variable cost per unit remains constant.
 (b) All costs can be separated into fixed and variable components.
 (c) Selling price per unit changes with change in volume of sales.
 (d) Total fixed cost remains constant.

182. सेबी (SEBI) नियमों के अनुसार, प्रति अंश आवेदन राशि होनी चाहिए निर्गत मूल्य का कम से कम
 (a) 25% (b) 20% (c) 15% (d) 5%
183. शून्य आधार बजटन का मुख्य उद्देश्य है
 (a) निर्णयों की प्रभावशीलता में सुधार करना । (b) बजट लक्ष्यों को निर्धारित करना ।
 (c) वित्तीय निष्पादन की निगरानी करना । (d) वित्तीय संसाधनों का वितरण करना ।
184. प्रमाप लागत विधि एक उपकरण है
 (a) कार्यकुशलता के मापन का (b) लाभ नियोजन का
 (c) कुल लागत के निर्धारण का (d) मूल्य निर्धारित करने का
185. स्थिर लागत में वृद्धि का सम-विच्छेद बिन्दु पर क्या प्रभाव होता है ?
 (a) कमी (b) वृद्धि (c) कोई परिवर्तन नहीं (d) आंशिक कमी
186. निम्न में कौन सा व्यवहार, कोष का उपयोग नहीं माना जा सकता ?
 (a) परिचालन से हानि (b) लाभांश का नकद भुगतान
 (c) पूँजी का नकद में शोधन (d) नकद के लिए स्थायी सम्पत्तियों का विक्रय
187. दिया गया है –
 बिक्री : ₹ 80,000
 लाभ : ₹ 20,000
 परिवर्तनशील लागत : ₹ 40,000
 स्थायी लागत की राशि होगी –
 (a) ₹ 30,000 (b) ₹ 25,000 (c) ₹ 20,000 (d) ₹ 15,000
188. निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्पादन बजटन का चरण नहीं है ?
 (a) उत्तरदायित्व केन्द्रों की स्थापना (b) निष्पादन लक्ष्यों का निर्धारण
 (c) बजटीय लक्ष्यों से वास्तविक निष्पादन की तुलना (d) एक बजट समिति की स्थापना
189. दिया गया है –
 कर पूर्व लाभ : ₹ 1,00,000
 ह्रास : ₹ 1,40,000
 मशीन की बिक्री पर हानि : ₹ 30,000
 मशीन की बिक्री : ₹ 50,000
 परिचालन क्रियाओं से प्राप्त रोकड़ प्रवाह की राशि है :
 (a) ₹ 2,70,000 (b) ₹ 3,20,000 (c) ₹ 2,20,000 (d) ₹ 1,90,000
190. निम्नलिखित में से कौन सी समविच्छेद विश्लेषण की एक मान्यता नहीं है ?
 (a) परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई स्थिर रहती है ।
 (b) सभी लागतों को स्थिर एवं परिवर्तनशील घटकों में पृथक किया जा सकता है ।
 (c) विक्रय की मात्रा में परिवर्तन के साथ प्रति इकाई विक्रय मूल्य परिवर्तित हो जाता है ।
 (d) कुल स्थिर लागत अपरिवर्तनीय रहती है ।

- 191.** What will be the current ratio if the data given is as follows :
- | | | | |
|------------------------|---|------------|--|
| Stock | : | ₹ 50,000 | |
| (B/R) Trade Receivable | : | ₹ 50,000 | |
| Advance Tax | : | ₹ 4,000 | |
| Cash | : | ₹ 30,000 | |
| (B/P) Trade Payables | : | ₹ 1,00,000 | |
| Bank Overdraft | : | ₹ 4,000 | |
- (a) 1.20 : 1 (b) 1.29 : 1 (c) 1.30 : 1 (d) 2 : 1
- 192.** A method of budgeting where activities are revaluated every time to prepare a budget is known as
- (a) Performance Budget (b) Zero Base Budget
(c) Flexible Budget (d) Functional Budget
- 193.** A responsibility centre where the manager is assigned the responsibility to take decisions for sales revenue, costs and capital investment is known as
- (a) Cost centre (b) Profit centre
(c) Revenue centre (d) Investment centre
- 194.** A firm's capability to meet its short-term obligations is measured by
- (a) Liquidity Ratios (b) Capital Structure Ratios
(c) Profitability Ratios (d) Turnover Ratios
- 195.** Goodwill is a
- (a) Non-current asset of intangible nature.
(b) Current asset of intangible nature.
(c) Liquid asset of intangible nature.
(d) Fictitious asset of intangible nature.
- 196.** As per AS-14, under the process of Amalgamation in the nature of merger, all the assets and liabilities of transferor company are transferred to transferee company at
- (a) Book value (b) Market value (c) Realisable value (d) Agreed value
- 197.** Liquidator's final statement of account is prepared
- (a) in case of compulsory winding up
(b) in all modes of winding up
(c) only in case of voluntary winding up
(d) not necessary to prepare
- 198.** Bombay Stock Exchange was established in the year
- (a) 1975 (b) 1875 (c) 1969 (d) 1992
- 199.** Which of the following is the liability of a Commercial Bank ?
- (a) Advances (b) Deposits
(c) Cash with the Reserve Bank (d) Bills Discounted
- 200.** Choose the correct option :
Money Market is controlled by
- (a) Reserve Bank of India
(b) State Bank of India
(c) State Government
(d) Security and Exchange Board of India (SEBI)

191. चालू अनुपात क्या होगा यदि निम्नांकित आँकड़े दिये गये हों :

स्टॉक	:	₹ 50,000
(B/R) व्यापार प्राप्य	:	₹ 50,000
अग्रिम कर	:	₹ 4,000
नकद	:	₹ 30,000
(B/P) व्यापार देयक	:	₹ 1,00,000
बैंक अधिविकर्ष	:	₹ 4,000

(a) 1.20 : 1 (b) 1.29 : 1 (c) 1.30 : 1 (d) 2 : 1

192. बजटन की वह विधि जिसमें बजट तैयार करते समय प्रत्येक बार गतिविधियों को पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, उसे जाना जाता है :

- (a) निष्पादन बजट के रूप में (b) शून्य आधार बजट के रूप में
(c) लचीला बजट के रूप में (d) कार्यात्मक बजट के रूप में

193. ऐसा उत्तरदायित्व केन्द्र जहाँ प्रबन्धक को विक्रयजनित आगम, लागतों एवं पूँजी निवेश संबंधी निर्णयों को लेने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, उसे कहा जाता है

- (a) लागत केन्द्र (b) लाभ केन्द्र (c) आगम केन्द्र (d) निवेश केन्द्र

194. किसी फर्म की उसके अल्पकालीन दायित्वों का निपटारा करने की क्षमता का मापन किया जाता है

- (a) तरलता अनुपातों द्वारा (b) पूँजी संरचना अनुपातों द्वारा
(c) लाभदायकता अनुपातों द्वारा (d) आवर्त अनुपातों द्वारा

195. ख्याति है

- (a) अमूर्त प्रकृति की गैर-चालू सम्पत्ति (b) अमूर्त प्रकृति की चालू सम्पत्ति
(c) अमूर्त प्रकृति की तरल सम्पत्ति (d) अमूर्त प्रकृति की काल्पनिक सम्पत्ति

196. लेखांकन मानक-14 के अनुसार, विलय की प्रकृति में एकीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत हस्तान्तरणकर्ता कम्पनी की सभी सम्पत्तियाँ एवं दायित्व हस्तान्तरिणी कम्पनी को हस्तान्तरित किये जाते हैं

- (a) पुस्तक मूल्य पर (b) बाज़ार मूल्य पर (c) वसूलीयोग्य मूल्य पर (d) सहमत मूल्य पर

197. निस्तारक (Liquidator) का अन्तिम विवरण खाता तैयार किया जाता है

- (a) अनिवार्य समापन की स्थिति में (b) समापन के सभी प्रकारों में
(c) केवल ऐच्छिक समापन की स्थिति में (d) बनाना आवश्यक नहीं है ।

198. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था वर्ष

- (a) 1975 में (b) 1875 में (c) 1969 में (d) 1992 में

199. निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंकों का एक दायित्व है ?

- (a) अग्रिम (b) निक्षेप
(c) रिज़र्व बैंक के पास रोकड़ (d) बट्टाकृत बिल

200. सही विकल्प का चयन कीजिये :

मुद्रा बाज़ार का नियन्त्रण किसके द्वारा किया जाता है ?

- (a) रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा (b) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा
(c) राज्य सरकार द्वारा (d) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा

Space For Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह



Teachingninja.in